



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 301]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 24, 2005/चैत्र 3, 1927

No. 301]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 24, 2005/CHAITRA 3, 1927

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 2005

का.आ. 409(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961. का 43) की धारा 80ठ की उप-धारा (1) के खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा निम्नलिखित ऋणपत्रों को बंधपत्रों की प्रकृति में विनिर्दिष्ट करती है, नामतः—

## भौतिक रूप में धारित बंधपत्र

- (i) निम्नलिखित संख्या वाला 19वीं श्रृंखला का भारतीय औद्योगिक विकास बैंक नियमित आय बंधपत्र (2004क)  
विकल्प 'क' के अन्तर्गत विशिष्ट संख्या 1910000001 से 1910025700 तक  
विकल्प 'ख' के अन्तर्गत विशिष्ट संख्या 1910115564 से 1910116113 तक  
विकल्प 'ग' के अन्तर्गत विशिष्ट संख्या 1910116120 से 1910125427 तक  
विकल्प 'घ' के अन्तर्गत विशिष्ट संख्या 1910226155 से 1910227052 तक  
विकल्प 'ड.' के अन्तर्गत विशिष्ट संख्या 1910230553 से 1910259317 तक
- (ii) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की 19वीं श्रृंखला के निम्नलिखित संख्या वाले सेवा-निवृत्ति बंधपत्र (2004क)

विकल्प 'क' के अन्तर्गत विशिष्ट संख्या 1930000001 से 1930000534 तक  
विकल्प 'ख' के अन्तर्गत विशिष्ट संख्या 1930000553 से 1930000771 तक

- (iii) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की 19वीं श्रृंखला के निम्नलिखित संख्या वाले अवसंरचना (कर बचत) बंधपत्र (2004 क)

विकल्प 'क' के अन्तर्गत विशिष्ट संख्या 1940000001 से 1940433473 तक  
विकल्प 'ख' के अन्तर्गत विशिष्ट संख्या 1940440829 से 1940468448 तक  
विकल्प 'ग' के अन्तर्गत विशिष्ट संख्या 1940469279 से 1940696357 तक  
विकल्प 'घ' के अन्तर्गत विशिष्ट संख्या 1940698998 से 1940727798 तक

### डीमैट रूप में धारित बंधपत्र

- (i) निम्नलिखित संख्या वाला 19वीं श्रृंखला का भारतीय औद्योगिक विकास बैंक नियमित आय बंधपत्र (2004क)  
विकल्प 'क' के अन्तर्गत विशिष्ट संख्या 1910025701 से 1910115563 तक  
विकल्प 'ख' के अन्तर्गत विशिष्ट संख्या 1910116114 से 1910116119 तक  
विकल्प 'ग' के अन्तर्गत विशिष्ट संख्या 1910125428 से 1910226154 तक  
विकल्प 'घ' के अन्तर्गत विशिष्ट संख्या 1910227053 से 1910230552 तक  
विकल्प 'ङ' के अन्तर्गत विशिष्ट संख्या 1910259318 से 1910445449 तक
- (ii) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की 19वीं श्रृंखला के निम्नलिखित संख्या वाले सेवा-निवृत्ति बंधपत्र (2004क)

विकल्प 'क' के अन्तर्गत विशिष्ट संख्या 1930000535 से 1930000552 तक  
और

- (iii) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की 19वीं श्रृंखला के निम्नलिखित संख्या वाले अवसंरचना (कर बचत) बंधपत्र (2004 क)

विकल्प 'क' के अन्तर्गत विशिष्ट संख्या 1940433474 से 1940440828 तक  
विकल्प 'ख' के अन्तर्गत विशिष्ट संख्या 1940468449 से 1940469278 तक  
विकल्प 'ग' के अन्तर्गत विशिष्ट संख्या 1940696358 से 1940698997 तक  
विकल्प 'घ' के अन्तर्गत विशिष्ट संख्या 1940727799 से 1940728651 तक

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक जो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 (1964 का 10) की धारा 3 के अन्तर्गत संस्थापित एक निगम है, द्वारा उक्त खंड के प्रयोजनार्थ फ्लैक्सीबॉण्ड्स- 19वीं श्रृंखला में बंधपत्रों के इसके सार्वजनिक निर्गम में जारी किया गया।

[अधिसूचना सं. 115/2005/फा.सं. 178/76/2004-आयकर नि.-I]

देवी शरण सिंह, अवर सचिव

**MINISTRY OF FINANCE**

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th March, 2005

S.O. 409(E).— In exercise of the powers conferred by clause (ii) of sub-section (1) of section 80L of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby specifies the following debentures, in the nature of bonds, namely:-

**BONDS HELD IN PHYSICAL FORM**

- (i) The Industrial Development Bank of India Regular Income Bond (2004A) of 19<sup>th</sup> Series bearing  
distinctive numbers from 1910000001 to 1910025700 under option "A",  
distinctive numbers from 1910115564 to 1910116113 under option "B",  
distinctive numbers from 1910116120 to 1910125427 under option "C",  
distinctive numbers from 1910226155 to 1910227052 under option "D",  
distinctive numbers from 1910230553 to 1910259317 under option "E";
- (ii) The Industrial Development Bank of India Retirement Bond (2004A) of 19<sup>th</sup> series bearing  
distinctive numbers from 1930000001 to 1930000534 under option "A",  
distinctive numbers from 1930000553 to 1930000771 under option "B";
- (iii) The Industrial Development Bank of India Infrastructure (Tax Saving) Bond (2004A) of 19<sup>th</sup> Series bearing  
distinctive numbers from 1940000001 to 1940433473 under option "A",  
distinctive numbers from 1940440829 to 1940468448 under option "B",  
distinctive numbers from 1940469279 to 1940696357 under option "C",  
distinctive numbers from 1940698998 to 1940727798 under option "D";

**BONDS HELD IN DEMAT FORM**

- (i) The Industrial Development Bank of India Regular Income Bond (2004A) of 19<sup>th</sup> Series bearing  
distinctive numbers from 1910025701 to 1910115563 under option "A",  
distinctive numbers from 1910116114 to 1910116119 under option "B",  
distinctive numbers from 1910125428 to 1910226154 under option "C",  
distinctive numbers from 1910227053 to 1910230552 under option "D",  
distinctive numbers from 1910259318 to 1910445449 under option "E";
- (ii) The Industrial Development Bank of India Retirement Bond (2004A) of 19<sup>th</sup> Series bearing  
distinctive numbers from 1930000535 to 1930000552 under option "A";  
and

- (iii) The Industrial Development Bank of India Infrastructure (Tax Saving) Bond (2004A) of 19<sup>th</sup> Series bearing distinctive numbers from 1940433474 to 1940440828 under option "A", distinctive numbers from 1940468449 to 1940469278 under option "B", distinctive numbers from 1940696358 to 1940698997 under option "C", distinctive numbers from 1940727799 to 1940728651 under option "D"

issued by the Industrial Development Bank of India, Mumbai, a corporation established under section 3 of the Industrial Development Bank of India Act, 1964 (10 of 1964) in its public issue of bonds in Flexibonds-19<sup>th</sup> Series, for the purposes of the said clause.

[Notification No. 115/2005/F. No. 178/76/2004-ITA-I]

DEVI SHARAN SINGH, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 2005

का.आ. 410(अ).— आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80ठ की उप-धारा (1) के खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित ऋणपत्रों को बंधपत्रों की प्रकृति में विनिर्दिष्ट करती है, नामतः—

**भौतिक रूप में धारित बंधपत्र**

- (i) निम्नलिखित संख्या वाला 20वीं श्रृंखला का भारतीय औद्योगिक विकास बैंक नियमित आय बंधपत्र (2004ख)  
विकल्प 'क' के अन्तर्गत विशिष्ट संख्या 2010000001 से 2010014526 तक  
विकल्प 'ख' के अन्तर्गत विशिष्ट संख्या 2010020527 से 2010021072 तक  
विकल्प 'ग' के अन्तर्गत विशिष्ट संख्या 2010021133 से 2010031113 तक  
विकल्प 'घ' के अन्तर्गत विशिष्ट संख्या 2010056214 से 2010056336 तक
- (ii) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की 20वीं श्रृंखला के निम्नलिखित संख्या वाले चालू दर बंधपत्र (2004ख)  
विकल्प 'क' के अन्तर्गत विशिष्ट संख्या 2020000001 से 2020000088 तक
- (iii) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की 20वीं श्रृंखला के निम्नलिखित संख्या वाले अवसंरचना (कर बचत) बंधपत्र (2004ख)  
विकल्प 'क' के अन्तर्गत विशिष्ट संख्या 2040000001 से 2040823839 तक  
विकल्प 'ख' के अन्तर्गत विशिष्ट संख्या 2040838780 से 2040861182 तक  
विकल्प 'ग' के अन्तर्गत विशिष्ट संख्या 2040861922 से 2041342065 तक  
विकल्प 'घ' के अन्तर्गत विशिष्ट संख्या 2041347987 से 2041378868 तक

**डीमैट रूप में धारित बंधपत्र**

- (i) निम्नलिखित संख्या वाला 20वीं श्रृंखला का भारतीय औद्योगिक विकास बैंक नियमित आय बंधपत्र (2004ख)  
 विकल्प 'क' के अन्तर्गत विशिष्ट संख्या 2010014527 से 2010020526 तक  
 विकल्प 'ख' के अन्तर्गत विशिष्ट संख्या 2010021073 से 2010021132 तक  
 विकल्प 'ग' के अन्तर्गत विशिष्ट संख्या 2010031114 से 2010056213 तक  
 विकल्प 'घ' के अन्तर्गत विशिष्ट संख्या 2010056337 से 2010056372 तक

- (ii) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की 20वीं श्रृंखला के निम्नलिखित संख्या वाले चालू दर बंधपत्र (2004ख)

विकल्प 'क' के अन्तर्गत विशिष्ट संख्या 2020000089 से 2020150398 तक और

- (iii) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की 20वीं श्रृंखला के निम्नलिखित संख्या वाले अवसंरचना (कर बचत) बंधपत्र (2004 ख)

विकल्प 'क' के अन्तर्गत विशिष्ट संख्या 2040823840 से 2040838779 तक  
 विकल्प 'ख' के अन्तर्गत विशिष्ट संख्या 2040861183 से 2040861921 तक  
 विकल्प 'ग' के अन्तर्गत विशिष्ट संख्या 2041342066 से 2041347986 तक  
 विकल्प 'घ' के अन्तर्गत विशिष्ट संख्या 2041378869 से 2041380073 तक

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक जो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 (1964 का 10) की धारा 3 के अन्तर्गत संस्थापित एक निगम है, द्वारा उक्त खंड के प्रयोजनार्थ फ्लैक्सीबॉण्ड्स- 20वीं श्रृंखला में बंधपत्रों के इसके सार्वजनिक निर्गम में जारी किया गया।

[अधिसूचना सं. 116/2005/फा.सं. 178/76/2004-आयकर नि.-I]

देवी शरण सिंह, अवर सचिव

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th March, 2005

S.O. 410(E).— In exercise of the powers conferred by clause (ii) of sub-section (1) of section 80L of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby specifies the following debentures, in the nature of bonds, namely:-

**BONDS HELD IN PHYSICAL FORM**

- (i) The Industrial Development Bank of India Regular Income Bond (2004B) of 20<sup>th</sup> Series bearing distinctive numbers from 2010000001 to 2010014526 under option "A",

1005 95/2005-2

- distinctive numbers from 2010020527 to 2010021072 under option "B",  
 distinctive numbers from 2010021133 to 2010031113 under option "C",  
 distinctive numbers from 2010056214 to 2010056336 under option "D";
- (ii) The Industrial Development Bank of India Floating Rate Bond (2004B) of 20<sup>th</sup> series bearing distinctive numbers from 2020000001 to 2020000088 under option "A";
- (iii) The Industrial Development Bank of India Infrastructure (Tax Saving) Bond (2004B) of 20<sup>th</sup> Series bearing distinctive numbers from 2040000001 to 2040823839 under option "A", distinctive numbers from 2040838780 to 2040861182 under option "B", distinctive numbers from 2040861922 to 2041342065 under option "C", distinctive numbers from 2041347987 to 2041378868 under option "D";

### **BONDS HELD IN DEMAT FORM**

- (i) The Industrial Development Bank of India Regular Income Bond (2004B) of 20<sup>th</sup> Series bearing distinctive numbers from 2010014527 to 2010020526 under option "A", distinctive numbers from 2010021073 to 2010021132 under option "B", distinctive numbers from 2010031114 to 2010056213 under option "C", distinctive numbers from 2010056337 to 2010056372 under option "D";
- (ii) The Industrial Development Bank of India Floating Rate Bond (2004B) of 20<sup>th</sup> Series bearing distinctive numbers from 2020000089 to 2020150398 under option "A"; and
- (iii) The Industrial Development Bank of India Infrastructure (Tax Saving) Bond (2004B) of 20<sup>th</sup> Series bearing distinctive numbers from 2040823840 to 2040838779 under option "A", distinctive numbers from 2040861183 to 2040861921 under option "B", distinctive numbers from 2041342066 to 2041347986 under option "C", distinctive numbers from 2041378869 to 2041380073 under option "D"

issued by the Industrial Development Bank of India, Mumbai, a corporation established under section 3 of the Industrial Development Bank of India Act, 1964 (10 of 1964) in its public issue of bonds in Flexibonds-20<sup>th</sup> Series, for the purposes of the said clause.

[Notification No. 116/2005/F. No. 178/76/2004-ITA-I]

DEVI SHARAN SINGH, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 2005

का.आ. 411(अ).— आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80ठ की उप-धारा (1) के खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा निम्नलिखित ऋणपत्रों को बंधपत्रों की प्रकृति में विनिर्दिष्ट करती है, नामतः—

**भौतिक रूप में धारित बंधपत्र**

- (i) निम्नलिखित संख्या वाला 21वीं श्रृंखला का भारतीय औद्योगिक विकास बैंक नियमित आय बंधपत्र (2004ग)  
 विकल्प 'क' के अन्तर्गत विशिष्ट संख्या 3756 से 16738 तक  
 विकल्प 'ख' के अन्तर्गत विशिष्ट संख्या 16739 से 16913 तक  
 विकल्प 'ग' के अन्तर्गत विशिष्ट संख्या 26661 से 29404 तक  
 विकल्प 'घ' के अन्तर्गत विशिष्ट संख्या 50388 से 67505 तक
- (ii) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की 21वीं श्रृंखला के निम्नलिखित संख्या वाले सेवा-निवृत्ति बंधपत्र (2004ग)  
 विकल्प 'क' के अन्तर्गत विशिष्ट संख्या 13 से 304 तक  
 विकल्प 'ख' के अन्तर्गत विशिष्ट संख्या 323 से 697 तक
- (iii) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की 21वीं श्रृंखला के निम्नलिखित संख्या वाले चालू दर बंधपत्र (2004ग)  
 विशिष्ट संख्या 5 से 577 तक
- (iv) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की 21वीं श्रृंखला के निम्नलिखित संख्या वाले अवसंरचना (कर बचत) बंधपत्र (2004 ग)  
 विकल्प 'क' के अन्तर्गत विशिष्ट संख्या 40850 से 1927015 तक  
 विकल्प 'ख' के अन्तर्गत विशिष्ट संख्या 1927807 से 1956207 तक  
 विकल्प 'ग' के अन्तर्गत विशिष्ट संख्या 1969303 से 3056390 तक  
 विकल्प 'घ' के अन्तर्गत विशिष्ट संख्या 3058044 से 3103380 तक

**डीमैट रूप में धारित बंधपत्र**

- (i) निम्नलिखित संख्या वाला 21वीं श्रृंखला का भारतीय औद्योगिक विकास बैंक नियमित आय बंधपत्र (2004ग)  
 विकल्प 'क' के अन्तर्गत विशिष्ट संख्या 1 से 3755 तक  
 विकल्प 'ख' के अन्तर्गत विशिष्ट संख्या 0 से 0 तक  
 विकल्प 'ग' के अन्तर्गत विशिष्ट संख्या 16914 से 26660 तक  
 विकल्प 'घ' के अन्तर्गत विशिष्ट संख्या 29405 से 50387 तक
- (ii) निम्नलिखित संख्या वाला 21वीं श्रृंखला का भारतीय औद्योगिक विकास बैंक सेवा-निवृत्ति बंधपत्र (2004ग)  
 विकल्प 'क' के अन्तर्गत विशिष्ट संख्या 1 से 12 तक  
 विकल्प 'ख' के अन्तर्गत विशिष्ट संख्या 305 से 322 तक

- (iii) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की 21वीं श्रृंखला के निम्नलिखित संख्या वाले चालू दर बंधपत्र (2004ग)

विशिष्ट संख्या 1 से 4 तक और

- (iv) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की 21वीं श्रृंखला के निम्नलिखित संख्या वाले अवसंरचना (कर बचत) बंधपत्र (2004ग)

विकल्प 'क' के अन्तर्गत विशिष्ट संख्या 1 से 40849 तक

विकल्प 'ख' के अन्तर्गत विशिष्ट संख्या 1927016 से 1927806 तक

विकल्प 'ग' के अन्तर्गत विशिष्ट संख्या 1956208 से 1969302 तक

विकल्प 'घ' के अन्तर्गत विशिष्ट संख्या 3056391 से 3058043 तक

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक जो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 (1964 का 10) की धारा 3 के अन्तर्गत संस्थापित एक निगम है, द्वारा उक्त खंड के प्रयोजनार्थ फ्लैक्सीबॉण्ड्स- 21वीं श्रृंखला में बंधपत्रों के इसके सार्वजनिक निर्गम में जारी किया गया।

[अधिसूचना सं. 117/2005/फा.सं. 178/76/2004-आयकर नि.-I]

देवी शरण सिंह, अवर सचिव

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 2005

S.O. 411(E).—In exercise of the powers conferred by clause (ii) of sub-section (1) of section 80L of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby specifies the following debentures, in the nature of bonds, namely:-

#### **BONDS HELD IN PHYSICAL FORM**

- (i) The Industrial Development Bank of India Regular Income Bond (2004C) of 21<sup>st</sup> Series bearing  
distinctive numbers from 3756 to 16738 under option "A",  
distinctive numbers from 16739 to 16913 under option "B",  
distinctive numbers from 26661 to 29404 under option "C",  
distinctive numbers from 50388 to 67505 under option "D";
- (ii) The Industrial Development Bank of India Retirement Bond (2004C) of 21<sup>st</sup> series bearing  
distinctive numbers from 13 to 304 under option "A",  
distinctive numbers from 323 to 697 under option "B";
- (iii) The Industrial Development Bank of India Floating Rate Bond (2004C) of 21<sup>st</sup> Series bearing  
distinctive numbers from 5 to 577;



- (iv) The Industrial Development Bank of India Infrastructure (Tax Saving) Bond (2004C) of 21<sup>st</sup> Series bearing  
 distinctive numbers from 40850 to 1927015 under option "A",  
 distinctive numbers from 1927807 to 1956207 under option "B",  
 distinctive numbers from 1969303 to 3056390 under option "C",  
 distinctive numbers from 3058044 to 3103380 under option "D";

### **BONDS HELD IN DEMAT FORM**

- (i) The Industrial Development Bank of India Regular Income Bond (2004C) of 21<sup>st</sup> Series bearing  
 distinctive numbers from 1 to 3755 under option "A",  
 distinctive numbers from 0 to 0 under option "B",  
 distinctive numbers from 16914 to 26660 under option "C",  
 distinctive numbers from 29405 to 50387 under option "D";
- (ii) The Industrial Development Bank of India Retirement Bond (2004C) of 21<sup>st</sup> Series bearing  
 distinctive numbers from 1 to 12 under option "A",  
 distinctive numbers from 305 to 322 under option "B";
- (iii) The Industrial Development Bank of India Floating Rate Bond (2004C) of 21<sup>st</sup> Series bearing  
 distinctive numbers from 1 to 4; and
- (iv) The Industrial Development Bank of India Infrastructure (Tax Saving) Bond (2004C) of 21<sup>st</sup> Series bearing  
 distinctive numbers from 1 to 40849 under option "A",  
 distinctive numbers from 1927016 to 1927806 under option "B",  
 distinctive numbers from 1956208 to 1969302 under option "C",  
 distinctive numbers from 3056391 to 3058043 under option "D"

issued by the Industrial Development Bank of India, Mumbai, a corporation established under section 3 of the Industrial Development Bank of India Act, 1964 (10 of 1964) in its public issue of bonds in Flexibonds-21<sup>st</sup> Series, for the purposes of the said clause.

[Notification No. 117/2005/F. No. 178/76/2004-ITA-I]

DEVI SHARAN SINGH, Under Secy.

100585/2005-3